

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) , में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 715(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 08/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E) dated the 28th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “6%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F.No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E) dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 16/2019 – Central Tax (Rate) dated the 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 715(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 08/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 557(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “12%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव